

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट परिवार को शुभकामनाएं!

मैं Mrs. Cheryl Watson-Harris, DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्टकी सुपरिंटेंडेंट हूं।

मुझे उम्मीद है कि आप सभी नए साल में खुश होंगे। हमारे बच्चों का नेतृत्व करने के लिए आपकी दृढ़ता, कड़ी मेहनत, धैर्य और साहस के लिए धन्यवाद। हमारे कर्मचारियों, बच्चों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कल 11 जनवरी, 2021 की रात को आयोजित शिक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान, मैंने यह जानकारी साझा की कि हम छात्रों के लिए स्कूल खोलने में देरी कर रहे हैं। छात्र पहले की योजना के अनुसार 19 जनवरी को आमने-सामने बैठकर पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। स्कूल के कर्मचारी CDC द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूल की तैयारी या शमन रणनीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे जो COVID 19 के जोखिम और प्रसार को कम करने में मददगार हैं।

हमारी प्राथमिकताएं, जैसा कि वे हमेशा से रही हैं, अनुपालन से पहले दया है और लचीली और धैर्यवान होना है।

हमारे स्कूल भवनों को छात्रों को फिर से खोलने में देरी करने का निर्णय एक कठिन निर्णय है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम इसे फिर से खोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा तभी करेंगे जब हम अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर लें। शमन रणनीतियों की निगरानी करने की हमारी क्षमता के अलावा, सकारात्मकता दर एक और संकेतक है जिसका उपयोग हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में करते हैं। CDC के मार्गदर्शन के अनुसार, 10% या उच्च सकारात्मकता दर हमें संचरण के उच्चतम जोखिम में डालती है। सोमवार तक, DeKalb में सकारात्मकता दर 14.7% है।

पिछले दो हफ्तों के दौरान, स्कूल जाने पर इतने सारे शिक्षकों को देखकर रोमांचित थी, जो वापस लौटने में सक्षम थे। उन्होंने इमारतों में लौटने के बारे में हमारे छात्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और वापस स्कूल आने के लिए उत्साहित थे। मैं DCSD के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जितनी नभी प्रशंसा करूँ वो कम होगी। इसके अतिरिक्त, हम उन शिक्षकों और स्कूल स्टाफ का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिन्होंने कठिनाई के समय छूट के लिए आवेदन किया है।

हम भविष्य में आमने-सामने के शिक्षण के लिए तैयारी रहे हैं, हमारी संचालन टीम स्कूल की तैयारी का महत्वपूर्ण निरीक्षण करती रहेगी, जिसमें निम्नलिखित का मूल्यांकन शामिल है:

- व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) और स्वच्छता आपूर्ति
- साफ-सफाई आपूर्ति और प्रक्रियाओं का वितरण

- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बैठने की व्यवस्था और उनके बीच की दूरी
- पानी की सुविधा
- पाइपलाइन और HVAC प्रणालियाँ
- COVID-19 स्कूल सुरक्षा संकेत

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे सभी कर्मचारी और छात्र हमारे स्कूल भवनों में पढ़ने और रहने के लिए सुरक्षित हैं। फिर से, COVID-19 के जोखिम को कम करने के लिए CDC की पाँच प्रमुख शमन रणनीतियों का अनुसरण जैसे:

- मास्क का निरंतर और सही उपयोग
- जितना अधिक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग
- हाथों की धुलाई
- सफाई और कीटाणु नाशन
- DeKalb स्वास्थ्य बोर्ड के सहयोग से संपर्क अनुरेखण

आपकी निरंतर भागीदारी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम COVID परीक्षण के विकल्प का पता लगाना जारी रखेंगे और रुचि रखने वालों के लिए टीकाकरण के अवसरों पर खुद को शिक्षित करना जारी रखेंगे। कृपया मेरे साथ 16 जनवरी को शाम 6 बजे एक वर्चुअल टाउन हॉल में शामिल हों। आप हमेशा हमारी वेबसाइट www.dekalbschoolsga.org पर ताजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे इस गतिशील समुदाय का हिस्सा बनने पर गर्व है। मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों के लिए सही निर्णय लेने वाले सही लोग हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि हम लचीले, धैर्यवान और दयालु होने के साथ-साथ, रणनीतिक और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ना जारी रखेंगे।